

**Uttar Pradesh Textile Technology Institute****11/208 Parwati Bagla Road, Souterganj, Kanpur (U.P), India-208001****(An Autonomous Body of UP Government)****(Affiliated to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow)**

Year of Admission (I/Ind Lateral)	Allotted Branch	Alloted Category	Allotted Sub Category	Male/ Female (Write M/F)	Application No.

Student's Personal Details			
1	Name of Candidate in Capital Letters		
2	Name of Candidate in Hindi		
3	Date of Birth (DD/MM/YYYY)		
4	Correspondence Address		
5	Permanent Address		Student's Photo above
6	Student's Mobile No		
7	Student's E-Mail Id		Student Signature above

8. Details of School/college Last Attended:			
Name of School/College Last Attended:			
Exam Pass	Intermediate (10+2)/ DIPLOMA/ B.Sc.		
Year of Passing (YYYY)			
Roll Number			
Maximum Marks	Marks Obtained	Division	(%) of Marks obtained

9. Details of Fee Payment (to be filled by the student)			
Mode of fee deposition	Bank Draft	SBI-E Collect	Any Other
Amount Deposited in Rs.			
Serial Number of DD/ Challan/College Receipt			
Name of Issuer Bank (in Case of DD)			
For Official (accounts section) Use Only (to be filled by Accounts section)			
I have checked the details of fee deposited			
Fee Amount deposited	Date:	Signature (Acc.)	<b>Note:</b>

**Family Details**

10	Fathers Name		Father's Photo Above
11	Father occupation		
12	Father's Residential/ correspondence Address		
13	Father's Office Address		
14	Father's Mobile No		
15	Father's E-Mail		
16	Father's Monthly Income in Rs.		
17	Father's Pan No.		Father's Signature Above
18	Mother's Name		Mother's Photo Above
19	Mother's Occupation		
20	Mother's Residential/ correspondence Address		
21	Mother's Office Address		
22	Mother's Mobile No		
23	Mother's E-Mail		
24	Mother's Monthly Income in Rs.		
			Mother's Signature Above
25	Mother's Pan No.		

<b>26. Details of Brothers and Sisters</b>		
Brother 1	<b>Name</b>	
	<b>Age in Years</b>	
	<b>Occupation/Studying</b>	
	<b>Address of Work/Study Place</b>	
	<b>Mobile No:</b>	
	<b>E-Mail Id.</b>	
Brother 2	<b>Name</b>	
	<b>Age in Years</b>	
	<b>Occupation/Studying</b>	
	<b>Address of Work/Study Place</b>	
	<b>Mobile No:</b>	
	<b>E-Mail Id.</b>	
Brother 3	<b>Name</b>	
	<b>Age in Years</b>	
	<b>Occupation/Studying</b>	
	<b>Address of Work/Study Place</b>	
	<b>Mobile No:</b>	
	<b>E-Mail Id.</b>	
Sister 1	<b>Name</b>	
	<b>Age in Years</b>	
	<b>Occupation/Studying</b>	
	<b>Address of Work/Study Place</b>	
sister 2	<b>Name</b>	
	<b>Age in Years</b>	
	<b>Occupation/Studying</b>	
	<b>Address of Work/Study Place</b>	
Sister 3	<b>Name</b>	
	<b>Age in Years</b>	
	<b>Occupation/Studying</b>	
	<b>Address of Work/Study Place</b>	

27 चेतावनी

रैगिंग अपराध है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं०-(सी)/656/1998 पर दिये गये निर्देश के अनुसार रैगिंग निषेध है अतः परोक्ष या अपरोक्ष रूप से रैगिंग में संलिप्त पाये जाने पर कक्षा से निष्कासन/छात्रावास से निष्कासन/संस्था से निष्कासन के साथ –साथ न्यायिक प्रक्रिया द्वारा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। अतः छात्र/छात्रायें रैगिंग जैसी कुकृत्यों में सम्मिलित न हों।

**28. Declaration 1: By Candidate:**

I ..... (Name of Candidate)  
Hereby declare that;

1. I have not been debarred/restricted from any educational society/Institute/College.
2. The details furnish in the application form are true to the best of my knowledge and belief and in case of any false information's admission will be treated cancelled.
3. I shall abide by the rules and regulations of the institute and university.

Date:

(Signature of Candidate)

**29. Declaration 2: By Candidate:**

मैं भलीभाँति समझता हूँ कि रैगिंग या अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही में अगर मैं दोषी पाया गया तो नियमानुसार दण्ड का भागी रहूँगा/रहूँगी।

Date:

छात्र/छात्रा का हस्ताक्षर

**30. Declaration: By Parent/Guardian:**

I .....  
(Name and Address) do solemnly affirm that I Undertake the responsibilities for the conduct of my son/  
daughter/ward Sri/Smt./Km. .... I also pay  
regularly all expenses during his/her study/stay at the institute and agree to refund all expenditures including free  
ship / stipend in leaving the study without completing the course.

Date:

Signature of Parent/Guardian

Recommend/Reject	
Signature of Document Verifier(Physical)	
Signature of HOD	

Verified from internet List by (Name & Signature)	
Date of Admission	
ID Card Number	

Dean

Director

**Office of the Registrar**  
**Uttar Pradesh Textile Technology Institute, Kanpur**  
**List of Documents to be attached with the Registration form at the Institute(Annexure-1)**

SN	दस्तावेज का नाम Name of the document	टिप्पणियाँ
1	कारंसिलिंग केन्द्र द्वारा दिये गये आवंटन पत्र की प्रति Copy of Allotment Letter given by Counselling Centre	
2	पात्रता परीक्षा (इंटरमीडिएट/डिप्लोमा) सर्टिफिकेट की कॉपी Copy of Qualifying Exam. (Intermediate/Diploma) Certificate	
3	हाई स्कूल प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि Copy of HIGH SCHOOL Certificate	
4	जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) की कॉपी	
5	जाति प्रमाण पत्र की संबंधित विभाग की वेबसाइट में प्राप्त सत्यापन कॉपी Verification copy of Caste Certificate obtained from the website of respective department	
6	निवास प्रमाण पत्र (DOMICILE Certificate) की कॉपी	
7	निवास प्रमाण पत्र की संबंधित विभाग की वेबसाइट से प्राप्त सत्यापन कॉपी Verification copy of Domicile Certificate obtained from the website of respective department	
8	छात्र की चार तस्वीरें (Four Photos of Student)	
9	कारंसिलिंग केन्द्र में जमा शुल्क की रसीद की प्रति Copy of Receipt of fee deposited at counselling Centre	
10	माता पिता या अभिभावक की फोटो (Photo of Parent or Guardian)	
11	संस्थान में देय शुल्क का भुगतान 11(A) या 11(B)	
	11(A) डिमांड ड्राफ्ट के रूप में निदेशक, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान के पक्ष में कानपुर में देय Demand Draft: It should be in favour of Director, Uttar Pradesh Textile Technology Institute, Payable at Kanpur	
	11(B) बैंक रसीद की प्रति (शुल्क बैंक में भुगतान किया जाता है) (SBI E Collect/IndusInd Bank द्वारा) Copy of Bank Receipt If fee is paid in the Bank by SBI E Collection/ IndusInd Bank	
12	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए जो ट्यूशन शुल्क और University fee में छूट चाहते हैं (नियमों और शर्तों को देखें) For SC/ST students who wish exemption in tuition fee and university fee (Please see rules and conditions at point 13)	
	12.1 जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)	
	12.2 जाति प्रमाण पत्र की संबंधित विभाग की वेबसाइट से प्राप्त सत्यापन कॉपी Verification copy of Caste Certificate obtained from the website of respective department	
	12.2 आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)	
	12.3 आय प्रमाण पत्र की राजस्व विभाग की वेबसाइट से प्राप्त सत्यापन कॉपी Verification copy of Income Certificate obtained from the website of revenue department	
	12.4 Agreement as per <b>Proforma 'B'</b> (परिशिष्ट 'ख') <b>in original</b>	
	12.5 चरित्र प्रमाण पत्र (Character Certificate)	
13	बिन्दु संख्या 12 के संबंध में नियम और शर्तें (समाज कल्याण आयुक्त के आदेश संख्या-2689(1)/26-03-2010-4(358)/2007 के अनुसार) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के छात्र पात्र हैं, जिनके माता पिता की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 2.00 लाख से कम है और प्रवेश के समय ट्यूशन फीस जमा करने से छूट का लाभ उठाने के लिए इच्छुक हैं, ऐसे छात्र के लिए (1) बिन्दु संख्या 12.1, 12.2, 12.3 और 12.4 के अनुसार दस्तावेज जमा करने अनिवार्य है (2) छात्रवृत्ति के लिए जरूरी आवेदन, फार्म भरने अनिवार्य है। (3) अपने सम्बन्धित बैंक खातों में समाज कल्याण समाज कल्याण विभाग की ओर से छात्रवृत्ति प्राप्त करने के दस दिनों के भीतर संस्थान में शेष फीस का भुगतान अनिवार्य है।	
14	Transfer Certificate / Migration Certificate	
15	Character Certificate	
16	Medical Certificate	
17	Affidavit of Anti Ragging Parents & Student(Print out of online filled)	
18	Aadhar	
19	Affidavit of Gap(if any)	
20	Affidavit of Agreement for SC&ST	

Below this line, for official use only

पुष्टि करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर  
Verifying Officer's Signature

नाम  
Name

तिथि  
Date

**Annexure-II**

**Office of the Registrar**

**Uttar Pradesh Textile Technology Institute, Kanpur**

**Guidelines for Students seeking admission to First Year & Second Year (Lateral Entry)**

1. Registration of fresh students will take place between **29 August 2024 to 04 September 2024** (or till the date extended by A.K.T.U., as the case may be) during 10:30am to 4:00 pm on all working days.
2. First Year Students will have to report at the admission cell of the institute.
3. Registration form will be given to the students at the time of registration at institute. Alternatively students can download it from our website and can bring it filled properly.
4. Registration form is to be filled by student and to be submitted at the concerned counter within the admission Cell.
5. List of documents required at the time of registration is attached with this instruction sheet.
6. Students are advised to carry **two sets** of attested documents.
7. We do not hold any other document in original except Transfer Certificate/Migration Certificate and Conduct Certificate. But all the documents are required in original for verification purpose.
8. SC/ST Students, who are eligible for "Dashmottar scholarship and fee reimbursement scheme of Samaj Kalyan Vibhag may be granted relaxation in fee deposition at the time of admission/ registration, on presentation of
  - a. Caste Certificate (Original)
  - b. Caste Certificate (Internet Copy)
  - c. Income Certificate (Original)
  - d. Income Certificate (Internet Copy)
  - e. Agreement as per Proforma 'B'
9. Students of all other categories, except mentioned at point 8, above and except fee waiver quota will be required to deposit full fee at the time of registration
10. Fee related instruction
  - a. SC/ST Students registration for the first Year and IInd Year (Lateral Entry) covered under point 8 above are required to pay **Rs 49000.00** less counselling fee already paid. (for example if you have paid **Rs. 12000/-** as counselling fee then you have to deposit **49000-12000 = Rs. 37000/-**)
  - b. Fee Waiver Quota students registering for the first Year are required to pay **Rs. 49,000.00** less counselling fee already paid.(for example if you have paid Rs. 20,000/-as counselling fee then you have to deposit **49000-20000 = Rs.29,000/-**)
  - c. Students of all other categories will be required to deposit full fee at the time of registration.  
**Rs. 89,000.00** less counselling fee already paid. (for example if you have paid Rs. 20,000/- as counselling fee then you have to deposit **89000-20000 = Rs. 69,000/-**)
  - d. The fee above is without adding hostel fee. Students are required to deposit the difference of above mentioned fee and the fee deposited at counselling centre of AKTU.  
यहां वर्णित शुल्क, पूर्ण देय शुल्क (छात्रवास शुल्क के बिना) है, प्रवेश के समय संस्थान में शुल्क भुगतान पहले ही Counselling Centre में जमा शुल्क और पूर्ण शुल्क के अन्तर राशि (Difference) के लिए किया जाएगा।
  - e. The fee is to be paid through Demand Draft in favour of Director UPTTI Kanpur, Payable at Kanpur.  
शुल्क भुगतान डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से "निदेशक, उ०प्र० वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर" के पक्ष में कानपुर पर देय किया जा सकता है।

OR

Fee may be deposited through online SBI SB collect web portal or through institute web site [uptti.ac.in](http://uptti.ac.in) "Pay Fee Online"

Students requiring hostel facility will have to fill the hostel application form and deposit in the Counter made for this.

Hostel Fee is **Rs. 23500.00** and to be deposited only after confirmation of allotment of hostel.


11. In case of any discrepancy in fee amount, the fee structure already uploaded on our web site will be taken as final reference.

For any query mail to : [info@uptti.ac.in](mailto:info@uptti.ac.in)

Website: [www.uptti.ac.in](http://www.uptti.ac.in)

### **Annexure-III**

To fill affidavit for Anti-ragging by parents and by students,(as per requirement mentioned in Sr. No. 17 of annexure-I), Please scan the following QR code:-



Please fill the Official Phone No. is 9942921948 when requires.